



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 श्रावण 1946 (श10)

(सं० पटना 836) पटना, शुक्रवार, 16 अगस्त 2024

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अधिसूचना

16 अगस्त 2024

सं० अ०सं०क०-04-15(वक्फ) 02/2016/288—वक्फ अधिनियम, 1995 सहपठित वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा 14 में वक्फ बोर्ड के गठन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। धारा 14 (1)(e) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा एक मुस्लिम पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर का हो, को बोर्ड सदस्य के रूप में मनोनयन करने का प्रावधान है।

2. उक्त अधिनियम की धारा 14 (1)(e) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा श्री मो० इजतबा हुसैन, संयुक्त सचिव, सांस्थिक वित्त शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना (कोटि क्रमांक-241/23) का मनोनयन बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य के रूप में किया जाता है।

3. मनोनीत बोर्ड सदस्य का कार्यकाल वक्फ अधिनियम 1995 (यथासंशोधित 2013) की धारा 21 के आलोक में वर्तमान बोर्ड की कार्य अवधि अथवा सेवानिवृत्त होने तक, जो पहले हो, तक रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
इब्रार अहमद खाँ,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 836-571+10-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>